



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 2016/वैशाख 20, 1938

No. 195]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 2016/VAISAKHA 20, 1938

भारतीय खाद्य निगम**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

सं. 112

सं. ईपी-1(1)/2015.—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37वां) की धारा-45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 में संशोधन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा आरंभ:

- (i) ये विनियम, भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) (पहला संशोधन) विनियम, 2016 कहे जाएंगे।
- (ii) ये सरकारी गजट में अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा: इस विनियम में शब्दों की परिभाषा और उनका अर्थ तथा पदों के पदनाम का अर्थ वही होगा जैसाकि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 तथा भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 में दिया गया है।

3. निम्नलिखित संशोधन भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 (परिशिष्ट -I) के पार्ट IX – इंजीनियरिंग संवर्ग में किए गए हैं:

- (i) भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 के परिशिष्ट-I, पार्ट IX – इंजीनियरिंग संवर्ग की क्रम सं.1(क) पर उप महाप्रबंधक (मैके./इंलै. इंजीनियरिंग) के संबंध में दर्शाये गए भर्ती नियमों को समाप्त किया जाता है।
- (ii) भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 के परिशिष्ट-I, पार्ट IX – इंजीनियरिंग संवर्ग के 'इलैक्ट्रिकल विंग' के अधीन क्रम सं.3,5 और 6 पर दर्शाये गए भर्ती नियमों को समाप्त किया जाता है।
- (iii) भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 के परिशिष्ट-I, पार्ट IX – इंजीनियरिंग संवर्ग के 'मैकेनिकल विंग' के अधीन क्रम सं. 3,5 और 6 पर दर्शाये गए भर्ती नियमों को समाप्त किया जाता है।
- (iv) संलग्न परिशिष्ट-I में विस्तार से दर्शाये अनुसार एक नया 'इलैक्ट्रिकल मैकेनिकल विंग' भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 के परिशिष्ट-I, पार्ट IX – इंजीनियरिंग संवर्ग के 'सिविल विंग' के नीचे जोड़ा जाता है।

भाग-IX- इंजीनियरिंग कैडर						परिशिष्ट-I			
क्र.सं.	पद का विवरण	वेतनमान रु.	भर्ती की पद्धति	पदोन्नति		सीधी भर्ती अर्हता एवं अनुभव यदि कोई है तो	आयु सीमा वर्ष	खाद्य महानिदेशालय में पदों की समान श्रेणियां	टिप्पणी
				चयनित/ गैर-चयनित	अनुभव				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
इलैक्ट्रिकल मैकेनिकल विंग									
श्रेणी-I के पद									
1.	उप महाप्रबंधक (इलै. मैके. इंजी.)	24900-50500	100% पदोन्नति द्वारा	चयन	सहायक महाप्रबंधक (ईएम/ईई/ एमई) के पद पर 5 वर्ष का अनुभव	-	-	-	-
2.	सहायक महाप्रबंधक (इलै. मैके. इंजी.)	20600-46500	100% पदोन्नति द्वारा / ऐसा न होने पर सीधी भर्ती/ डेपुटेशन के माध्यम से भर्ती	चयन	प्रबंधक (ईएम/ईई/ एमई) के पद पर 5 वर्ष अथवा फोरमैन (ईई/ एमई) के पद पर 5 वर्ष का अनुभव अथवा एएमआईई की योग्यता या इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की	इलैक्ट्रिकल / मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ 5 वर्ष का अनुभव	45	कार्यपालक अभियंता	-
श्रेणी- II के पद									
3.	प्रबंधक (ई.एम)	16400-40500	75% पदोन्नति द्वारा 25% सीधी भर्ती के माध्यम से	चयन -	डिग्री धारकों के मामले में कनिष्ठ अभियंता (ईएम/ईई/ एमई) के रूप में 2 वर्ष का अनुभव तथा डिप्लोमा धारकों के संबंध में 5 वर्ष का अनुभव -	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री तथा समकक्ष	28	-	-
श्रेणी- III के पद									
4.	कनिष्ठ अभियंता (ई.एम.)	11100-29950	100% सीधी भर्ती द्वारा	-	-	इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा इलैक्ट्रिकल अथवा मैकेनिकल	28	-	-

						इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ केवल डिप्लोमा धारकों के मामले में 1 वर्ष का अनुभव			
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

सुभाष जाड़ू, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./77]

टिप्पणी: मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 8.5.1971 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे तथा तदनुरूप अंतिम बार निम्न के माध्यम से संशोधित किये गए :

क्र. सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2007	15.05.2007
2.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2009	14.02.2009
3.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2010	20.03.2010
4.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2010	16.07.2010
5.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(तीसरा संशोधन) विनियम, 2010	20.07.2010
6.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(चौथा संशोधन) विनियम, 2010	23.11.2010
7.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2011	13.04.2011
8.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2011	24.06.2011
9.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(तीसरा संशोधन) विनियम, 2011	24.06.2011
10.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2013	27.06.2013
11.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2014	16.07.2014
12.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2014	16.07.2014
13.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2015	06.04.2015
14.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2015	29.05.2015
15.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(तीसरा संशोधन) विनियम, 2015	13.07.2015

FOOD CORPORATION OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th April, 2016

NO. 112

No.EP-1(1)/2015.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following Regulations to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely:—

1. Short Title and Commencement:

- These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (First Amendment) Regulations, 2016.
- These shall come into force from the date of Notification in the Official Gazette.

2. Definitions: The definitions and meaning of the words and designation of posts in this Regulation shall have the same meaning as contained in the Food Corporations Act, 1964 and the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971.

3. The following amendments are made in PART-IX-ENGINEERING CADRE of the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 (Appendix-I):

(i) The recruitment rules appearing at 'Sl. No.1(A) - Deputy Genl. Manager (Mech./Elect. Engineering)' of PART-IX-ENGINEERING CADRE in Appendix-I of the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 is deleted.

(ii) The recruitment rules appearing at Sl. No. 3, 5 and 6 under 'Electrical Wing' of PART-IX-ENGINEERING CADRE in Appendix-I of the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 is deleted.

(iii) The recruitment rules appearing at Sl. No. 3, 5 and 6 under 'Mechanical Wing' of PART-IX-ENGINEERING CADRE in Appendix-I of the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 is deleted.

(iv) A new 'Electrical Mechanical Wing' as given in detail in the enclosed Annexure-I is inserted below 'Civil Wing' of PART-IX-ENGINEERING CADRE of Appendix-I of the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971.

Annexure-I

PART-IX-ENGINEERING CADRE

Sl. No.	Description of post	Scale of Pay (Rs.)	Mode of recruitment	Promotion		Direct recruitment Qualifications & experience, if any	Age limit years	Corresponding categories of posts in the Directorate Genl. of Food	Remarks
				Selection/ Non-selection	Experience				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
ELECTRICAL MECHANICAL WING									
CATEGORY-I POSTS:									
1.	Deputy Genl. Manager (Elect.Mech. Engineering)	24900-50500	100% by promotion	Selection	5 yrs. as AGM (EM/EE/ME).	-	-	-	-
2.	Asstt. Genl. Manager (Elect.Mech. Engineering)	20600-46500	100% Promotion, Failing which Direct Recruitment/ deputation	Selection	5 yrs. as Manager (EM/EE/ME) or 5 years as Foreman (EE/ME) possessing AMIE qualification or Diploma in Elec. Engg. or Mechanical Engineering.	Degree in Electrical Engineering/ Mechanical Engineering with experience of 5 years.	45	Executive Engineer	-
CATEGORY-II POSTS									
3.	Manager (EM)	16400-40500	75% by Promotion 25% by Direct recruitment	Selection	Experience as Jr. Engineer (EM/EE/ME) of 2 years in the case of degree holders and 5 years in the case of diploma holders. -	Degree in Electrical Engineering or Mechanical Engineering from a recognized University or equivalent.	28	-	-
CATEGORY-III POSTS									
4.	Junior Engineer (EM)	11100-29950	100% direct recruitment	-	-	Degree in Electrical Engineering or Mechanical Engineering or diploma in Electrical Engg. or Mechanical Engineering with one year experience in the case of Diploma holders only.	28	-	-

SUBHASH ZADOO, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./77]

Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide Notification dated 8-5-1971 and subsequently have been amended being lastly vide:

Sl. No.	Title	Dated
1.	FCI (Staff) (1 st Amendment) Regulations, 2007	15.05.2007
2.	FCI (Staff) (1 st Amendment) Regulations, 2009	14.09.2009
3.	FCI (Staff) (1 st Amendment) Regulations, 2010	20.03.2010
4.	FCI (Staff) (2 nd Amendment) Regulations, 2010	16.07.2010
5.	FCI (Staff) (3 rd Amendment) Regulations, 2010	20.07.2010
6.	FCI (Staff) (4 th Amendment) Regulations, 2010	23.11.2010
7.	FCI (Staff) (1 st Amendment) Regulations, 2011	13.04.2011
8.	FCI (Staff) (2 nd Amendment) Regulations, 2011	24.06.2011
9.	FCI (Staff) (3 rd Amendment) Regulations, 2011	24.06.2011
10.	FCI (Staff) (1 st Amendment) Regulations, 2013	27.06.2013
11.	FCI (Staff) (1 st Amendment) Regulations, 2014	16.07.2014
12.	FCI (Staff) (2 nd Amendment) Regulations, 2014	16.07.2014
13.	FCI (Staff) (1 st Amendment) Regulations, 2015	06.04.2015
14.	FCI (Staff) (2 nd Amendment) Regulations, 2015	29.05.2015
15.	FCI (Staff) (3 rd Amendment) Regulations, 2015	13.07.2015